



अपने आप को स्कैमर्स से सुरक्षित रखें।

इलेक्ट्रॉनिक संचार में विकास के साथ-साथ यह ज़रूरी नहीं है कि आपसे कुछ चुराने के लिए अपराधी आपके सामने आएँ। निरंतर नए-नए स्कैम आते रहते हैं और स्कैमर्स लोगों से उनका धन या उनकी सूचना की चोरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

हो सकता है कि स्कैमर्स आपके बैंक या किसी सेवा प्रदाता से सम्बन्ध रखने का ढोंग करें, खेल में सट्टेबाजी के या अल्पावधि के निवेश अवसरों की पेशकश करें। वे विदेश से बकाया धन लौटाने की क्षमता का दावा कर सकते हैं, अक्सर रोमांस व डेटिंग के मौकों की पेशकश कर सकते हैं और साथ ही कई अन्य तरीकों से आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। **हो सकता है** कि देखने में ये असली प्रतीत हों।

यहाँ कुछ सामान्य प्रकार्य दिए गए हैं जिनका प्रयोग आप स्वयं को स्कैमर्स से बचाने में मदद के लिए कर सकते/सकती हैं।

यदि यह इतना अधिक अच्छा हो कि इसपर विश्वास न हो ...

- जिस व्यक्ति को आप जानते/जानती नहीं हैं या जिसपर आप भरोसा नहीं करते/करती हैं, उसे धन या क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन एकाउंट विवरण **कभी न दें।**
- कोई निवेश या खरीददारी से सम्बन्धित निर्णय लेने से पहले **हमेशा** स्वतंत्र वित्तीय और/या कानूनी सलाह लें।
- जो व्यक्ति आपको सेवा या निवेश बेच रहा हो, केवल उसपर ही निर्भर **कभी न रहें।**

डोर टू डोर सेल्स या 'ट्रेडी स्कैम'

- दबाव में आकर अग्रिम रूप से हस्ताक्षर या भुगतान **न करें।**
- किसी कांटेक्ट (अनुबंध) का भुगतान करने या इसपर सहमत होने से पहले **हमेशा** किसी कम्पनी या सेवा प्रदाता के बारे में जाँच-पड़ताल कर लें।
- किसी भी काम का भुगतान करने से पहले **हमेशा** किसी कांटेक्ट (अनुबंध) या सेवा दस्तावेज को पढ़ लें।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें

- जिन व्यक्तियों को आप जानते/जानती नहीं हैं और जिनपर आप भरोसा नहीं करते/करती हैं, उन्हें अपने निजी या बैंक एकाउंट विवरण **कभी भी न दें।**
- यदि किसी स्कैमर ने आपसे संपर्क किया है, तो **हमेशा** अपने बैंक, वित्तीय संस्थान या सेवा प्रदाता से संपर्क करें।
- किसी ई-मेल का जवाब देने से पहले उसकी वैधता की पुष्टि करने के लिए उसमें दिए गए नम्बरों का प्रयोग **न करें।**

कोई चीज़ पहली बार जैसी प्रतीत हो, उसे वास्तविक में वैसी ही न मान लें

- किसी ऐसी ई-मेल से धोखा **न** खाएँ जो वैध प्रतीत होती हो या जो किसी असली वेबसाइट के लिंक से जुड़ी हुई लगती हो।
- संदिग्ध या अनचाही ई-मेल (स्पैम) को **न** खोलें – इन्हें नज़रअंदाज करें।
- **हमेशा** 'कोल्ड कॉलिंग' से बचें और यह पुष्टि करें कि आप वास्तव में किससे बात कर रहे/रही हैं।

यदि आपको लगता है कि आप साइबर से सम्बन्धित किसी अपराध के शिकार हुए/हुई हैं, तो इसकी सूचना तुरंत ही www.acorn.gov.au पर दें

अपराध रोकथाम सूचना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें www.police.nsw.gov.au

अपने आप को धोखाधड़ी से बचाएँ



Justice



Triple Zero (000)
For emergencies or life threatening situations.



Police Assistance Line (131 444)
For non emergencies.



Crime Stoppers (1800 333 000)
To provide crime information. It can be anonymous.